

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ 27, शक 1936

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. 3227-स्टेनो-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची-1, में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन दिन के भीतर अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला भोपाल को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

| क्र. | शामिल की जाने वाली नगरीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत | शामिल की जाने वाले ग्राम (संपूर्ण राजस्व ग्राम) | तहसील | शामिल की जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|------|--|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | संपूर्ण कोलार नगरपालिका का क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 से 25 तक. | संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र | हुजूर | 5017.610 |
| 2 | बोरदा | 1. बोरदा | हुजूर | 709.290 |
| 3 | कालापानी | 2. कालापानी 3. महाबडिया 4. थुआखेड़ा | हुजूर | 1489.800 637.070 363.950 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|----------------|------------------------|-------|----------|
| 4 | अचारपुरा | 5. अचारपुरा | हुजूर | 501.440 |
| | | 6. हज्जामपुरा | | 185.780 |
| | | 7. परेवाखेड़ा | | 458.480 |
| 5 | सेवनिया ओंकारा | 8. सेवनिया ओंकारा | हुजूर | 406.090 |
| | | 9. अरहेड़ी | | 609.970 |
| 6 | अरवलिया | 10. अरवलिया | हुजूर | 262.400 |
| | | 11. परवलिया सानी | | 367.900 |
| 7 | आदमपुर छावनी | 12. आदमपुर छावनी | हुजूर | 1638.830 |
| 8 | इस्लाम नगर | 13. इस्लाम नगर | हुजूर | 1110.120 |
| 9 | ईटखेड़ी सड़क | 14. ईटखेड़ी सड़क | हुजूर | 222.290 |
| | | 15. घासीपुरा | | 31.680 |
| 10 | रापड़िया | 16. रापड़िया | हुजूर | 459.960 |
| | | 17. कटारा | | 415.620 |
| | | 18. बर्राई | | 449.530 |
| | | 19. बगली | | 215.810 |
| 11 | कोलुआ खुर्द | 20. कोलुआ खुर्द | हुजूर | 250.620 |
| | | 21. चोर सागोनी | | 84.000 |
| | | 22. झिरिया खेड़ा | | 267.490 |
| | | 23. सागोनी कला | | 171.690 |
| | | 24. डोबरा जागीर | | 174.230 |
| 12 | कोलूखेड़ी | 25. कोलूखेड़ी | हुजूर | 486.600 |
| 13 | कलखेड़ा | 26. कलखेड़ा | हुजूर | 393.800 |
| | | 27. मालीखेड़ी (नीलबड़) | | 353.200 |
| | | 28. रोलूखेड़ी | | 137.570 |
| 14 | कानासैया | 29. कानासैया | हुजूर | 1833.040 |
| 15 | कुराना | 30. कुराना | हुजूर | 745.490 |
| 16 | खेजड़ादेव | 31. खेजड़ादेव | हुजूर | 259.960 |
| | | 32. चांदपुर | | 271.520 |
| | | 33. डोबरा | | 147.690 |
| | | 34. बिशनखेड़ी | | 169.660 |
| | | 35. प्रेमपुरा (कुराना) | | 126.660 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--------------|-----------------------------|-------|----------|
| 17 | गोलखेड़ी | 36. गोलखेड़ी | हुजूर | 121.300 |
| | | 37. भैरोपुर | | 57.550 |
| | | 38. बीनापुर | | 328.040 |
| | | 39. कांचबावली | | 50.120 |
| 18 | चौपड़ाकला | 40. चौपड़ाकला | हुजूर | 866.350 |
| 19 | छान | 41. छान | हुजूर | 303.610 |
| | | 42. मक्सी | | 148.519 |
| | | 43. पिपलियाकुंजनगढ़ | | 163.980 |
| | | 44. भैरोपुर | | 228.440 |
| 20 | भौरी | 45. भौरी | हुजूर | 1484.600 |
| | | 46. जमोनिया छीर | | 244.230 |
| | | 47. मीरपुर वीरान | | 216.110 |
| 21 | रातीबड़ | 48. रातीबड़ | हुजूर | 169.920 |
| | | 49. छापरी | | 261.350 |
| | | 50. कुशलपुरा | | 140.860 |
| | | 51. महुआखेड़ा | | 341.430 |
| | | 52. फतेहपुर डोबरा | | 563.200 |
| 22 | देवलखेड़ी | 53. देवलखेड़ी | हुजूर | 121.010 |
| | | 54. पिपलिया बाजखॉ | | 243.900 |
| | | 55. पुरामनभावन | | 77.750 |
| | | 56. श्यामपुर | | 96.280 |
| | | 57. मो. नगर उर्फ सत्तीखेड़ा | | 47.080 |
| 23 | दीपड़ी | 58. दीपड़ी | हुजूर | 522.070 |
| | | 59. समरधा कलियासोत | | 324.610 |
| 24 | नरोन्हासाँकल | 60. नरोन्हासाँकल | हुजूर | 734.900 |
| 25 | रतनपुर सड़क | 61. रतनपुर सड़क | हुजूर | 522.970 |
| | | 62. नरेला हनुमंत | | 276.610 |
| | | 63. बिलखिरिया खुर्द | | 163.350 |
| | | 64. गुराड़ीघाट | | 284.160 |
| 26 | नीलबड़ | 65. नीलबड़ | हुजूर | 284.140 |
| 27 | बंगरसिया | 66. बंगरसिया | हुजूर | 362.510 |
| 28 | बकानिया | 67. बकानिया | हुजूर | 836.190 |
| 29 | बरखेड़ा नाथू | 68. बरखेड़ा नाथू | हुजूर | 698.980 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-------------------------------|---|-------|---|
| 30 | बरखेड़ा बोदर | 69. बरखेड़ा बोदर | हुजूर | 957.240 |
| 31 | बेरखेड़ी बज्याफत | 70. बेरखेड़ी बज्याफत | हुजूर | 427.760 |
| 32 | बिलखिरिया कला (रायसेन रोड) | 71. बिलखिरिया कला (रायसेन रोड) | हुजूर | 384.920 |
| 33 | भानपुर केकड़िया | 72. भानपुर केकड़िया | हुजूर | 943.190 |
| 34 | मेण्डोरी | 73. मेण्डोरी 74. मेण्डोरा | हुजूर | 339.350 284.980 |
| 35 | मुगालिया छाप | 75. मुगालिया छाप | हुजूर | 1321.640 |
| 36 | लांबाखेड़ा | 76. लांबाखेड़ा | हुजूर | 540.450 |
| 37 | सरवर | 77. सरवर 78. समसगढ़ 79. झागरिया खुर्द 80. मित्तुखेड़ी | हुजूर | 562.150 617.280 432.510 127.980 |
| 38 | सिकंदराबाद | 81. सिकंदराबाद 82. रसूलिया गोसाईं | हुजूर | 503.870 274.230 |
| 39 | सूखी सेवनिया | 83. सूखी सेवनिया | हुजूर | 732.690 |
| 40 | अमझरा | 84. अमझरा 85. बासिया 86. पिपलिया हठीला | हुजूर | 1618.300 803.370 102.470 |
| 41 | आमला | 87. आमला 88. समसपुरा 89. अमरपुरा | हुजूर | 1457.660 443.740 104.920 |
| 42 | इमलिया | 90. इमलिया 91. घाटखेड़ी 92. सेमरा सैयद | हुजूर | 793.100 123.080 189.910 |
| 43 | सुरैया नगर | 93. कोड़ी 94. पिपलिया रानी 95. खड़बमूलिया 96. सुरैया नगर 97. बंदौरी | हुजूर | 195.510 161.620 134.150 184.310 162.700 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----------------|----------------------|-------|----------|
| | | 98. कोटरा | | 162.300 |
| | | 99. खांडावड़ | | 131.740 |
| | | 100. सेवनिया | | 118.570 |
| 44 | खजूरी | 101. खजूरी | हुजूर | 367.930 |
| | | 102. राताताल | | 397.960 |
| | | 103. हिनोतिया जागीर | | 198.230 |
| 45 | खजूरीसड़क | 104. खजूरीसड़क | हुजूर | 350.320 |
| | | 105. खेतला खेड़ी | | 114.600 |
| | | 106. खारखेड़ी | | 240.810 |
| 46 | खामखेड़ा | 107. खामखेड़ा | हुजूर | 777.940 |
| | | 108. कल्याणपुर | | 202.340 |
| 47 | चन्दू खेड़ी | 109. चन्दू खेड़ी | हुजूर | 446.740 |
| | | 110. मुबारकपुर | | 426.950 |
| | | 111. बदरखां सड़क | | 207.970 |
| | | 112. मोरगा वीरान | | 187.240 |
| 48 | परवलिया सड़क | 113. परवलिया सड़क | हुजूर | 1067.980 |
| | | 114. रातीबड़ | | 392.350 |
| 49 | पिपलिया जहीरपीर | 115. पिपलिया जहीरपीर | हुजूर | 823.960 |
| | | 116. कल्याणपुर | | 1637.590 |
| 50 | बगरोदा | 117. बगरोदा | हुजूर | 1542.762 |
| | | 118. सेमरीखुर्द | | 178.210 |
| 51 | बड़झिरी | 119. बड़झिरी | हुजूर | 236.580 |
| | | 120. खुरचनी | | 485.230 |
| 52 | निपानिया सूखा | 121. रोजी वेह | हुजूर | 237.670 |
| | | 122. मनीखेड़ी कोट | | 552.180 |
| | | 123. निपानिया सूखा | | 572.240 |
| | | 124. करदई | | 327.750 |
| | | 125. जोगी बर्री | | 158.600 |
| | | 126. गुराड़िया | | 227.600 |
| 53 | ईटखेड़ी छाप | 127. लखापुर | हुजूर | 290.320 |
| | | 128. ईटखेड़ी छाप | | 477.440 |
| | | 129. कजलास | | 328.877 |
| | | 130. खामलाखेड़ी | | 148.790 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|---------|
| 54 | सेमरी बाज्याप्त | 131. सेमरी बाज्याप्त | हुजूर | 369.050 |
| | | 132. खारपा | | 399.160 |
| 55 | जमुनियाकलां | 133. लालपुर (टपरा) वीरान | हुजूर | 247.560 |
| | | 134. जमुनियाकलां | | 518.210 |
| | | 135. डंगरोली | | 209.970 |
| | | 136. वनखेड़ी वीरान | | 97.180 |
| 56 | पड़रिया जाट | 137. झागरिया खुर्द | हुजूर | 394.530 |
| | | 138. पड़रिया जाट | | 448.630 |
| | | 139. नरेला बाज्याप्त | | 138.840 |
| | | 140. बावड़िया खुर्द | | 312.050 |
| 57 | निपानिया जाट | 141. निपानिया जाट | हुजूर | 494.500 |
| योग : 65285.488 हेक्टेयर | | | | |

अनुसूची—दो

अनुसूची—1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका निगम, भोपाल की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है :—

उत्तर में.—ग्राम मुगालिया हाट, तारा सेवनिया, पिपलिया छपरबंद, पृथ्वीपुरा, झापडिया, चंदेरी, कुठार, शाहपुर (कुठार), देवपुर, बरखेड़ी हज्जाम, काछी बरखेड़ा, दुपाड़िया रायपुर, रासलाखेड़ी, कालापीपल, सुमेरखेड़ी, चांचेड़, मुगालिया खुर्द, रूसल्ली बेलदार, मुगालिया कोट, रूसल्ली चुनगर, डोब की दक्षिणी दिशा का मेड़ा.

दक्षिण में.—तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन की उत्तरी सीमा, ग्राम पिपलिया बेरखेड़ी, ग्राम शोभापुर, अमरावत कलां, भोजनगर की उत्तरी सीमा.

पूर्व में.—ग्राम गढमुर्दा, अमोनी, समरधा एवं जिला रायसेन की पश्चिमी सीमा.

पश्चिम में.—ग्राम रसूलिया पठार, नीलबड़, बरखेड़ा सालम, खोरी, धामनिया, फंदा कलां, पिपलिया धाकड़, कोडिया, नांदनी, खारपी, मुडला एवं जिला सीहोर की पूर्वी दिशा की सीमा.

No. 3227-Steno-2014.—In exercise of the power conferred by Section 405 (1) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby notify its intention to include the local area which are shown in the schedule-1 below within the limit of the Bhopal Municipal Corporation, District Bhopal.

The Local authority having jurisdiction in the said area or any person resident therein may submit his objection or suggestion in writing to the Collector, District Bhopal within thirty days from the date of publication of this notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government shall take such objection into consideration:—

SCHEDULE—1

| S. No. | Name of the Urban Area/Gram Panchayat | Name of the Villages to be included (Whole Revenue Village) | Tehsil | Area (In Hactares) |
|--------|---------------------------------------|---|--------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | Whole Area of Nagar Palika Kolar | Ward No. 1 to 25 as per latest Delimitation of wards. | Huzur | 5017.610 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|------------------|---|-------|---|
| 02 | Borda | 1. Borda | Huzur | 709.290 |
| 03 | Kalapani | 2. Kalapani 3. Mahabadia 4. Thuwakhera | Huzur | 1489.800 637.070 363.950 |
| 04 | Acharpura | 5. Acharpura 6. Hajjampura 7. Parevarkheda | Huzur | 501.440 185.780 458.480 |
| 05 | Senvaniya Onkara | 8. Sevaniya Onkara 9. Arhedi | Huzur | 406.090 609.970 |
| 06 | Arwalia | 10. Arwalia 11. Parvalia Sani | Huzur | 262.400 367.900 |
| 07 | Adampur Chhawni | 12. Adampur Chhawni | Huzur | 1638.830 |
| 08 | Islam Nagar | 13. Islam Nagar | Huzur | 1110.120 |
| 09 | Itkhedi Sadak | 14. Itkhedi Sadak 15. Ghasipura | Huzur | 222.290 31.680 |
| 10 | Rapadia | 16. Rapadia 17. Katara 18. Barraai 19. Bagli | Huzur | 459.960 415.620 449.530 215.810 |
| 11 | Koluwakhurd | 20. Koluwakhurd 21. Chor Sagoani 22. Jhiriya Khera 23. Sagoani Kala 24. Dobra Jagir | Huzur | 250.620 84.000 267.490 171.690 174.230 |
| 12 | Kolu Kheri | 25. Kolu Kheri | Huzur | 486.600 |
| 13 | Kalkheda | 26. Kalkheda 27. Malikhedi (Neelbad) 28. Rolukhedi | Huzur | 393.800 353.200 137.570 |
| 14 | Kanhasaiya | 29. Kanhasaiya | Huzur | 1833.040 |
| 15 | Kurana | 30. Kurana | Huzur | 745.490 |
| 16 | Khejradev | 31. Khejradev 32. Chandpura 33. Dobra 34. Bishankhedi 35. Prempura (Kurana) | Huzur | 259.960 271.520 147.690 169.660 126.660 |
| 17 | Golkheri | 36. Golkheri 37. Bhirupur 38. Binapur 39. Kanchabbli | Huzur | 121.300 57.550 328.040 50.120 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---------------------------|---|-------|---|
| 18 | Chopra Kala | 40. Chopra Kala | Huzur | 866.350 |
| 19 | Chhan | 41. Chhan 42. Maksi 43. Pipila Kunjan Garh 44. Bhairapura | Huzur | 303.610 148.519 163.980 228.440 |
| 20 | Bhouri | 45. Bhouri 46. Jamonia Chheer 47. Meerpur (Viran) | Huzur | 1484.600 244.230 216.110 |
| 21 | Ratibad | 48. Ratibad 49. Chhapri 50. Kusalpura 51. Mahuakhera 52. Fatehpur Dobra | Huzur | 169.920 261.350 140.860 341.430 563.200 |
| 22 | Dewalkheri | 53. Dewalkheri 54. Pipliyabaaz Khan 55. Puraman Bhawan 56. Shyampur 57. Mohammed Nagar (Sattikhera) | Huzur | 121.010 243.900 77.750 96.280 47.080 |
| 23 | Dipri | 58. Dipri 59. Samardha Kaliasot | Huzur | 522.070 324.610 |
| 24 | Naronhasakal | 60. Naronhasakal | Huzur | 734.900 |
| 25 | Ratanpur Sadak | 61. Ratanpur Sadak 62. Narela-Hanumant 63. Bilkhiriya Khurd 64. Guradighat | Huzur | 522.970 276.610 163.350 284.160 |
| 26 | Neelbad | 65. Neelbad | Huzur | 284.140 |
| 27 | Bangrasia | 66. Bangrasia | Huzur | 362.510 |
| 28 | Bakania | 67. Bakania | Huzur | 836.190 |
| 29 | Barkhera Nathu | 68. Barkhera Nathu | Huzur | 698.980 |
| 30 | Berkhera Bodar | 69. Berkhera Bodar | Huzur | 957.240 |
| 31 | Bairkhedi Bajyafat | 70. Bairkhedi Bajyafat | Huzur | 427.760 |
| 32 | Bilkhiriya (Raisen Road) | 71. Bilkhiriya Kala (Raisen Road) | Huzur | 384.920 |
| 33 | Bhanpur Kekdia | 72. Bhanpur Kekdia | Huzur | 943.190 |
| 34 | Mendori | 73. Mendori 74. Mandora | Huzur | 339.350 284.980 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--------------------|--|-------|--|
| 35 | Mungalia Chhap | 75. Mungalia Chhap | Huzur | 1321.640 |
| 36 | Lambakhera | 76. Lambakhera | Huzur | 540.450 |
| 37 | Sarwar | 77. Sarwar 78. Samas garh 79. Jhagaria Khurd 80. Mitukheri | Huzur | 562.150 617.280 432.510 127.980 |
| 38 | Sikandarabad | 81. Sikandarabad 82. Rasulia Gosai | Huzur | 503.870 274.230 |
| 39 | Sukhi Sevania | 83. Sukhi Sevania | Huzur | 732.690 |
| 40 | Amjhera | 84. Amjhera 85. Basiya 86. Piplia Hathila | Huzur | 1618.300 803.370 102.470 |
| 41 | Amla | 87. Amla 88. Samaspura 89. Amarpura | Huzur | 1457.660 443.740 104.920 |
| 42 | Imliya | 90. Imliya 91. Ghatkhedi 92. Samra Sayyad | Huzur | 793.100 123.080 189.910 |
| 43 | Suraiya Nagar | 93. Kodi 94. Piplia Rani 95. Khadmulia 96. Suraiya Nagar 97. Bandori 98. Kotra 99. Khandabad 100. Sewania | Huzur | 195.510 161.620 134.150 184.310 162.700 162.300 131.740 118.570 |
| 44 | Khajuri | 101. Khajuri 102. Ratatal 103. Hinotia Jhagir | Huzur | 367.930 397.960 198.230 |
| 45 | Khajuri Sadak | 104. Khajuri Sadak 105. Khetlakheri 106. Kharkheri | Huzur | 350.320 114.600 240.810 |
| 46 | Khamkheda | 107. Khamkheda 108. Kalyanpur | Huzur | 777.940 202.340 |
| 47 | Chandukheri | 109. Chandukheri 110. Mubarakpur 111. Badarkha Sadak 112. Morga Viran | Huzur | 446.740 426.950 207.970 187.240 |
| 48 | Parwaliya Sadak | 113. Parwaliya Sadak 114. Ratibad | Huzur | 1067.980 392.350 |
| 49 | Pipaliya Jahirpeer | 115. Pipaliya Jahirpeer 116. Kalyanpur | Huzur | 823.960 1637.590 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|----------------|--|-------|--|
| 50 | Bagroda | 117. Bagroda 118. Semri Khurd | Huzur | 1542.762 178.210 |
| 51 | Badjhiri | 119. Badjhiri 120. Khurchani | Huzur | 236.580 485.230 |
| 52 | Nipaniya Sukha | 121. Roji Weh 122. Manikheri Kot 123. Nipaniya Sukha 124. Kardai 125. Jogibbarri 126. Guradia | Huzur | 237.670 552.180 572.240 327.750 158.600 227.600 |
| 53 | Itkheri Chhap | 127. Lakhapur 128. Itkheri Chhap 129. Kajlas 130. Khamla Kheri | Huzur | 290.320 477.440 328.877 148.790 |
| 54 | Semri Bajyaft | 131. Semri Bajyaft 132. Kharpa | Huzur | 369.050 399.160 |
| 55 | Jamunia Kala | 133. Laalpura (Tapara) Veeran 134. Jamunia Kala 135. Dangrouli 136. Bankheri (Veeran) | Huzur | 247.560 518.210 209.970 97.180 |
| 56 | Padiriajat | 137. Jhagriaya Khurd 138. Padariajat 139. Narela Bajyaft 140. Babadia Khurd | Huzur | 394.530 448.630 138.840 312.050 |
| 57 | Nipaniya Jat | 141. Nipaniya Jat | Huzur | 494.500 |
| | | | | Total : 65285.488 |

SCHEDULE-2

Revised boundary of Bhopal Municipal Corporation including the area shown in Schedule-1 will be as follows :—

In the North.—Gram Mugalia Haat, Tara Sewania, Pipaliya Chhapparband, Prithwipura, Jhapadia, Chanderi, Kuthar, Shahpur (Kuthar), Devpur, Barkhedi Hujjam, Kachhi Barkheda, Dupadia, Raipur, Rasla Khedi, Kala Pipal, Sumerkhedi, Chanced, Mugalia Khurd, Rusalli Beldar, Mugalia Kot, Rusalli Chungar, Southern Boundary of Dob.

In the South.—Nothern boundary of Tahsil Gauharganj, District Raisen, Pipalia Berkhedi, Sobhapur, Amrawat Kala, Nothern boundary of Bhojnagar.

In the East.—Village Garhmurra, Amoni, Samardha, western boundary of district Raisen.

In the West.—Village Rasulia Pathar, Neelbad, Barkheda Salam, Khauri, Dhamania, Fandakala, Pipalia Dhakad, Kodia, Nandani, Kharpi, Mudla, Eastern boundary of District Sehore.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.